



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1939 (श10)

(सं० पटना 672) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2017

सं० 08/आरोप-01-330/2014-8003/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

4 जुलाई 2017

श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1061/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा सदर के विरुद्ध सैरातो की बंदोबस्ती में अनियमितता बरतने के आरोपों के लिए कार्रवाई की अनुशंसा आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-1444 दिनांक 28.12.2013 द्वारा की गई। विभागीय पत्रांक 2323 दिनांक 18.02.2014 द्वारा श्री गुप्ता से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 27.01.2015) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 3028 दिनांक 24.02.2015 द्वारा आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त स्तर से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक-397 दिनांक 17.04.2015) में श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

2. तदोपरांत उक्त आरोपों पर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा से आरोप, प्रपत्र-‘क’ की मांग की गयी। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-333 दिनांक 15.02.2016 द्वारा आरोप, प्रपत्र-‘क’ प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-‘क’ पुनर्गठित करते हुए पत्रांक 6749 दिनांक 12.05.2016 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस क्रम में समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक 30.05.2016) में श्री गुप्ता ने उल्लेख किया कि समाहर्ता, दरभंगा के ज्ञाप संख्या-643 दिनांक 26.02.2013 के आलोक में 50,000/-रुपये से अधिक सुरक्षित जमा राशि वाले सैरातो की बंदोबस्ती की गयी तथा बंदोबस्ती के उपरांत बंदोवस्त सैरातो की सूची समाहर्ता को भेज दी गयी। सैरातो की बंदोबस्ती हेतु उन्होंने आम सूचना निर्गत किया था।

3. विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि श्री गुप्ता ने सैरातों की बंदोवस्ती हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया। वस्तुतः डाक की तिथि एवं बंदोवस्ती की सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी चाहिए थी। परन्तु आरोपित पदाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर आम सूचना निर्गत कर सैरातो की बंदोवस्ती कर दी। व्यापक प्रचार/प्रसार के बिना एवं सरकार के निदेश का बिना पालन किये सैरातों की बंदोवस्ती करने के लिए श्री गुप्ता दोषी पाये गये।

अतएव सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1061/11 के विरुद्ध निम्नलिखित लघु शास्ति अधिरोपित की जाती है:-

(क) निंदन (आरोप वर्ष 2012-13)।

(ख) एक वेतन वृद्धि की असंचयी प्रभाव से रोक।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 672-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>